

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 7 जनवरी 2025 — पौष 17, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 3 जनवरी 2025

आदेश

क्रमांक 24 / 4369 / 21-ब/छ.ग./2024.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राज किशोर सोनकर, विशेष लोक अभियोजक (ACB/EOW), रायपुर की सेवाएँ उनके उत्तराधिकारी के पदभार ग्रहण करने के दिनांक से समाप्त करते हुये उनके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 18 की उपधारा (8) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विशेष न्यायालय (ACB/EOW) रायपुर (छ.ग.) में राज्य की ओर से पैरवी करने हेतु श्री डालेश्वर प्रसाद साहू को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परीक्षा अवधि अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक के लिए विशेष लोक अभियोजक (ACB/EOW) नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय – समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैनुअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 8639/21-ब/छ.ग./2022 दिनांक 26 जुलाई, 2022 के अनुरूप देय होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.पी. सोहगौरा, अवर सचिव.